

CLASS NOTES

Class: VIII

कार्यपत्रक

Subject: हिन्दी

Topic: क्या निराश हुआ जाए, भारत की खोज, पत्र, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन

पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए

प्रश्न (1) सही विकल्प का चयन कीजिए--

[अ] समाचार-पत्रों में अधिकतर कैसे समाचार होते हैं ?

(i) साहित्य से जुड़े (ii) ज्ञान देने वाले (iii) ठगी, डकैती, चोरी भ्रष्टाचार आदि के (iv) विज्ञान से संबंधित

[ब] आजकल कैसे लोग फल-फूल रहे हैं ?

(i) झूठे और फरेबी लोग (ii) ईमानदार लोग (iii) स्पष्ट वक्ता (iv) कामचोर लोग

[स] टिकट बाबू के चेहरे पर संतोष की गरिमा क्यों थी ?

(i) क्योंकि उसने धोखे से आए लेखक के पैसे लौटा दिए थे (ii) उसने लेखक को पहचान लिया था
(iii) वह एक संतोषी जीव था (iv) वह लेखक के लिए टिकट लाया था

[द] हमें कैसी बातों को याद रखना चाहिए ?

(i) बुरी बातों को (ii) लाभ वाली बातों को (iii) अच्छी बातों को (iv) दिल छू लेने वाली बातों को

[ई] बस का कंडेक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया था ?

(i) दूध और फल (ii) फल और मिठाई (iii) मिठाई और लस्सी (iv) दूध और पानी

प्रश्न (2) निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए--

क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था ? रवीन्द्रनाथ ठाकुर और मदनमोहन मालवीय का महान संस्कृति-सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया ? आर्य और द्रविड़, हिन्दू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन-भूमि 'मानव महा-समुद्र' क्या सूख ही गया ? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता | हमारे मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा |

यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलानेवाले निरीह और भोले-भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल-फूल रहे हैं | ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, सचाई केवल भीरु और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है | ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है |

[अ] भारतवर्ष का सपना किसने देखा था ?

(i) तिलक ने (ii) गांधी ने (iii) उपर्युक्त दोनों ने (iv) इनमें से कोई नहीं

[ब] भारतवर्ष की महान सभ्य संस्कृति कहाँ डूब गई ?

(i) सागर में (ii) पाश्चात्य देशों में (स) गहवर में (iv) युद्ध में

[स] आज के माहौल में कौन अधिक परेशान है ?

(i) ईमानदार लोग (ii) मेहनत करने वाले (स) निरीह और भोले-भाले लोग (iv) उपर्युक्त सभी

[द] कायर और लाचार लोगों की वस्तु बनकर क्या रह गई है ?

(i) धोखाधड़ी (ii) बेईमानी (iii) झूठ (iv) सच्चाई

[ई] जीविका में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ?

(i) जीव (ii) विका (iii) इका (iv) का

प्रश्न (3) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए---

[अ] दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है ?

[ब] आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे ?

[स] "भारत में धर्म कानून से बड़ी चीज है" क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए ।

[द] सुश्रुत कौन थे ? उनका शल्य-चिकित्सा के क्षेत्र में क्या योगदान था ?

[ई] अजंता की गुफाओं की सुंदरता का वर्णन कीजिए ।

प्रश्न (4) बताइए---

[अ] 'अहमदनगर का किला' पाठ कब व किसके द्वारा लिखा गया ?

[ब] मोहन जोदड़ों की सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है ?

[स] संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना ----- ने की ।

[द] अहमदनगर का किला नेहरू जी के जीवन की ----- जेल यात्रा थी ।

[ई] हर्षवर्धन ने ----- को अपनी राजधानी बनाई ।

प्रश्न (5) निर्देशानुसार पत्र लिखिए---

[अ] डाकिए की लापरवाही के कारण आपके इलाके में डाक नियमित रूप से नहीं पहुँचती, जिससे असुविधा होती है । इस असुविधा का वर्णन करते हुए अपने इलाके के डाक पाल को पत्र लिखिए ।

अथवा

आपके विद्यालय में संपन्न हुए वृक्षारोपण समारोह के विषय में बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए ।

[ब] गणित एवं विज्ञान की अतिरिक्त कक्षाएँ आयोजित करने के संबंध में प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए ।

अथवा

स्वच्छता अभियान का महत्त्व बताते हुए अपनी छोटी बहन को पत्र लिखिए ।

[स] अपने विद्यालय के पुस्तकालय की विशेषताओं के बारे में बताते हुए अपनी माता जी को पत्र लिखिए।

अथवा

आपके विद्यालय में सर्वोत्तम पेयजल की व्यवस्था करवाने हेतु विद्यालय के प्राचार्य को धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए ।

प्रश्न (6) संवाद लेखन

[अ] व्यायाम का लाभ बताते हुए दो मित्रों के मध्य बातचीत का संवाद-लेखन कीजिए ।

[ब] आपको अपने मित्र से हिन्दी विषय से संबंधित एक पुस्तक चाहिए । इस सन्दर्भ में मित्र और आपके बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए ।

[स] देर से सोकर उठने वाले पुत्र और माँ के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए ।

प्रश्न (7) अनुच्छेद लेखन

[अ] वनों की महत्ता

[ब] प्राकृतिक आपदाएँ

[स] विद्यार्थी और अनुशासन

